



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 223] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 1968/पोष 3, 1890

No. 223] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 1968/PAUSA 3, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 24th December 1968

G.S.R. 2237.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 182/61-Central Excises, dated the 1st December, 1961, the Central Government hereby fixes, for such internal combustion engines, other than marine diesel engines, as operate with diesel oil, liable to duty under sub-item (ii) of item 29 of the First Schedule to the said Act, and the horse power of which is specified in Column (2) of the schedule hereto annexed, the Tariff Values specified in corresponding entry in Column (3) thereof.

SCHEDULE

S. No.	Horse Power of the Engines	Tariff Value
(1)	(2)	(3)
1.	Exceeding 10 HP but not exceeding 15 HP	Rs. 4,000
3.	Exceeding 20 HP but not exceeding 30 HP	Rs. 8,000
3.	Exceeding 20 HP but not exceeding 30 HP	Rs. 8,000

Explanation.—Horse-Power—The Unit of power is the metric horse-power equivalent to 4,500m.-kg/min. (The horse-power based on the fps system is slightly larger than the metric horse-power and is equal to 1.014 metric horse-power), determined as per Indian Standard Specifications 1800 to 1603.

[No. 204/68.]

S. P. KAMPANI, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व तथा बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1968

सं० का० नि० 2238:—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधाराओं (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 18 2/61-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 दिसम्बर, 1961 को अतिष्ठित करते हुए केन्द्रीय सरकार, मेरीन डीजल इंजन से भिन्न ऐसे अन्तर्वहन इंजन के लिए, जो डीजल तेल से चलता है और उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद 29 की उपमद (ii) के अधीन शुल्क देने का दायी है तथा जिसकी अश्व-शक्ति एतदुपायद्वय अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, अनुसूची के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट टारिफ मूल्य एवद्वारा नियत करती है:

अनुसूची

क्रम सं०	इंजन की अश्व-शक्ति	टारिफ मूल्य
(1)	(2)	(3)
		रुपए
1.	10 अ०श० से अधिक किन्तु 15 अ० श० से अनधिक	4,300
2.	15 अ०श० से अधिक किन्तु 20 अ० श० से अनधिक	6,000
3.	20 अ० श० से अधिक किन्तु 30 अ० श० से अनधिक	8,000

स्पष्टीकरण:—अश्व-शक्ति—शक्ति की इकाई 4,500 एम०कि० ग्र०/मिन० के समतुल्य मीटरी अश्व-शक्ति है (एफ पी एस पद्धति पर आधारित अश्व-शक्ति मीटरी अश्व-शक्ति की अपेक्षा कुछ अधिक है और 1.014 मीटरी अश्व शक्ति के बराबरी है) जो भारतीय मानक विनिर्देशों के अनुसार 1600 से लेकर 1603 तक अवधारित की गई है।

[सं० 204/68]

एस० पी० कम्पानी, संयुक्त सचिव।

